

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 29.01.2023

रंगदारी मांगने व धमकी देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशिभूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/22 धारा 386,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत निषाद उर्फ पप्पू निषाद पुत्र स्वामीनाथ निषाद निवासी ग्राम भौवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, हाल मुकाम कूड़ाघाट पिपलडाढ़ा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण-

वादिनी के पति को रंजीत निषाद उर्फ पप्पू निषाद पुत्र स्वामीनाथ निषाद निवासी ग्राम भौवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, हाल मुकाम कूड़ाघाट पिपलडाढ़ा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर द्वारा विगत चार पांच महीनों से धमकी दी जा रही थी कि पीड़ित उसे अपनी जमीन बेच दे यदि वह अपनी जमीन उसे नहीं देगा तो वह वादिनी मुकदमा के पति व उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। दिनांक 27.01.2023 रंजीत निषाद अपने तीन चार साथियों के साथ वादिनी मुकदमा के घर गया तथा वादिनी के पति को पुनः जमीन बेचने के लिए दबाव बनाने लगा तथा जमीन न देने की स्थिति में 03 लाख रुपया रंगदारी मांगने लगा और 24 घण्टे के अन्दर उसकी बात न मानने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देन लगा जिसके संबंध में वादिनी मुकदमा के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/23 धारा 386,506 पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

रंजीत निषाद उर्फ पप्पू निषाद पुत्र स्वामीनाथ निषाद निवासी ग्राम भौवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 59/16 धारा 342/364/365/419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 108/20 धारा 120B/406/420 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 123/17 धारा 307 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 124/17 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 125/17 धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 636/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना बेलीपार गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 39/15 धारा 307/504/506 भादवि व 31(A) क्रिमिनल लाँ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 11/12 धारा 143/188/341 भादवि व 7 क्रिमिनल लाँ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट थाना बेलीपार गोरखपुर
9. मु0अ0सं0 553/2005 धारा 120B/302/394 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 आशुतोष कुमार राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 रणजीत चौहान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. क0 टीपू सुल्तान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर